

# ए0 पी0 एस0 एम0 कॉलेज, बरौनी

## स्नातक द्वितीय खण्ड, सत्र-2022-2025 में नामांकन हेतु सूचना

ए0 पी0 एस0 एम0 कॉलेज, बरौनी, बेगूसराय में स्नातक द्वितीय खण्ड, कला/विज्ञान सत्र-2022-2025 का नामांकन ऑनलाईन लिया जाएगा। स्नातक प्रथम खण्ड - 2023 की परीक्षा में शामिल हो चुके इस महाविद्यालय के विद्यार्थी नामांकन हेतु महाविद्यालय के **नामांकन पोर्टल ([www.apsmcollege.online](http://www.apsmcollege.online))** पर लॉगिन करके घर बैठे ही सभी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए दिनांक 18.10.2023 से 26.10.2023 तक नामांकन ले सकते हैं।


महाविद्यालय के नामांकन पोर्टल **[www.apsmcollege.online](http://www.apsmcollege.online)** पर क्लिक करने के उपरांत स्क्रीन पर दिखाई देने वाले **Degree Admission** पर क्लिक करना है।

1. **Click on Degree Admission option**
2. **Click on Go for Online Admission process**
3. **Enter Your Unique Reference Number**
4. **Select Academic Year - Class PART-II**
5. **Show the Student Details then Click Hear for Admission**


नामांकन फार्म खुलने के उपरांत मांगी गई सभी सूचनाओं को सही सही भरना है और भरने के बाद ही नामांकन शुल्क जमा करें। तभी आपका नामांकन हो पाएगा। नामांकित छात्र एवं छात्राएँ नामांकन होने के उपरांत नामांकन शुल्क और नामांकन फार्म का दो प्रति प्रिन्ट आउट निकालकर एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे और दूसरी प्रति को द्वितीय खण्ड परीक्षा फार्म के साथ महाविद्यालय में जमा करेंगे।

नामांकन लेने के पूर्व अपलोड करने के लिए निम्नलिखित कागजातों को साथ रखना अनिवार्य है-

1. महाविद्यालय का परिचय पत्र।
2. प्रथम खण्ड नामांकन का **Admission Slip** की एक प्रति।
3. जाति प्रमाण पत्र (जिनके साथ लागू हो)।
4. प्रथम खण्ड परीक्षा का प्रवेश पत्र।
5. एक **Photograph** एवं **Signature**

  
प्रधानाचार्य

ए0पी0एस0एम0 कॉलेज, बरौनी

  
18/10/23